

Certificate Course in Translation
2024-2025
Annual wise distribution of Courses

Course Code	Title of Paper	Total Marks
1	Theory of Translation	100
2	Practice of Translation-Hindi to English & English to Hindi	100
	Total	200

*ShreelDhamna
9/08/2024*

Certificate Course in Translation 2024-2025

Paper - I

Theory of Translation (अनुवाद के सिद्धांत)

100 Marks

Translation Definition, Aim, Importance and Scope, Demerits, Limitation, Good Translation, Theories of Translation

अनुवाद की परिभाषा, अनुवाद का उद्देश्य, महत्व और व्यवहार-क्षेत्र, अनुवाद के दोष, अनुवाद की सीमाएँ, सफल अनुवाद, अनुवाद-सिद्धांत

Processor Translation- Nada's View, Nemark's View
Bathgate's View, Conclusion

अनुवाद प्रक्रिया— नाइडा का चिंतन, न्यूमार्क का चिंतन, बाथगेट का चिंतन, निष्कर्ष

Types of Translation, Type of Extra Linguistic Translation, Types of Intra-Linguistic Translation, Types of Secondary Translation

अनुवाद के प्रकार — भाषाबाह्य
अनुवाद — प्रकार, भाषाकेंद्रित ,
अनुवाद — प्रकार, गौण अनुवाद—
प्रकार

Type of Text

पाठों के प्रकार

Translation Work - Types of Translator, Abilities of Translator, Language of Translator, Methods of Translation, Evaluation, Lexical, Syntactical, Semantic Contextual, Teaching of Translation in Monolingual and Bilingual Contexts

अनुवाद कार्य— अनुवाद के प्रकार,
अनुवाद की क्षमताएँ, अनुवाद की,
भाषा, अनुवाद मूल्यांकन की विधियाँ
कोशगत, वाक्यविन्यासगत, अर्थगत,
संदर्भगत, अनुवाद-शिक्षण—सम्भाषिक
संदर्भ में अनुवाद—शिक्षण, द्विभाषिक
संदर्भ में, अनुवाद—शिक्षण

Books Recommended

निर्धारित पुस्तकें —

- (1) Aspects of Translation - L. Forster (Ed.) A.D. Booth (Sicker and Warberg, London).
- (2) A Linguistic Theory of Translation - J.C. Catford (Oxford University Press, London).
- (3) Towards A Science of Translating - E.A. Nida (Leiden, E.J. Brill).
- (4) Translation and Translation - J.P. Postgate (London : Bell).

Shivkumar 09/08/2024

- (5) अनुवाद सिद्धांत की रूपरेखा – सुरेश कुमार (वाणी प्रकाशन, दिल्ली).
- (6) अनुवादकला सिद्धांत और प्रयोग – कैलाशचंद्र भाटिया (भारतीय ग्रंथ निकेतन, दिल्ली).
- (7) अनुवाद विज्ञान – भोलानाथ तिवारी.
- (8) अनुवाद : सिद्धांत और समस्याएँ – रवींद्र श्रीवास्तव एवं कृष्ण कुमार गोस्वामी.
- (9) अनुवादकला और समस्याएँ – वैज्ञानिक अनुसंधान और संस्कृति मंत्रालय, भारत
- (10) भारतीय भाषाओं से अनुवाद की समस्याएँ – भोलानाथ तिवारी एवं किरण बाला (शब्दकार, दिल्ली).

Sheetal 9/8/2024

Certificate Course in Translation 2024-2025

Paper - II

Practice of Translation-Hindi to English & English to Hindi

100 Marks

There will be ten questions of equal marks based on the matter on the following topics. Each Topic will have two passages one for Hindi-English Translation and the other for English-Hindi Translation (Students can use dictionaries)

इस प्रश्न-पत्र में निम्नलिखित प्रकरणों पर आधारित समान अंकों वाले दस प्रश्न पूछे जाएँगे। प्रत्येक प्रकरण पर दो गद्यांश होंगे— पहला हिंदी—अँगरेजी अनुवाद के लिए और दूसरा अँगरेजी—हिंदी अनुवाद के लिए। छात्र शब्दकोश इस्तेमाल कर सकते हैं।

1.	News	-	समाचार
2.	Official Letter	-	कार्यालयीन पत्र
3.	Literary Essay	-	साहित्यिक निबंध
4.	Conversation	-	वार्तालाप
5.	Advertisement	-	विज्ञापन

Books Recommended

निर्धारित पुस्तकें –

- (1) How to Translate in to English (Incorporating Spoken English) - R.P. Sinha, Bharat Bhawan, Patna.